

APM FINVEST LIMITED

Corporate Office: 201, 2nd Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034

Phone: (011) 42610483, **Email:** apmfinvestltd@gmail.com

CIN : L65990RJ2016PLC054921, **Website:** www.apmfinvest.com

Date 12th June, 2022

To,
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001

Ref: Scrip Code 542774

Sub: Newspaper clipping with respect to the Postal Ballot Notice of the Company

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper clippings of publication made in Newspapers viz. – The Indian Express (English-National Daily) and Prabhat Abhinandan (Hindi Regional Daily) on Sunday, June 12, 2022.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For APM Finvest Limited



Mayank Pratap Singh
Company Secretary and Compliance Officer



Regional Office: **Netaji Marg, Nr. Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedabad-6.** Phone: +91-79-26421671-75

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

NOTICE is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer issued demand notice on the date mentioned against the account stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower(s), having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general, that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the said Rules 2002 on the date mentioned against the loan account. The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the Bank for the amounts, interest, costs and charges thereon. The borrowers/borrowers' attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

Name of borrower(s) & Loan Account No.	Description of property mortgaged (Secured Asset)	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession Notice	Outstanding Amt. as on Date of Demand Notice
Mr. Jaikant Shukla Mrs. Rekha 706/2328 & 706/2390	All that piece and parcel of the immovable property situated at House No. 21, Shastri Basti, Sri Ganganagar (Raj.) admeasuring 900 Sq. Ft and bounded by: North: Plot No. 22, South: Plot No. 20, East: Government Qtr, West: Road	07.03.2022	07.06.2022	Rs. 10,45,408.35
Mr. Gursevak Singh Mr. Guraprit Singh Mrs. Manjit Kaur 706/3357 & 706/3421	All that part and parcel of the immovable property situated at Village- Bhagwanagar, Panchayat Samiti- Suratgarh, District- Sri Ganganagar (Raj.) admeasuring 2700 Sq. Ft (Patta No. 29) and bounded by: North: Aam Rasta, South: Labh Singh, East: Manjit Kaur, West: Rasta	31.03.2022	07.06.2022	Rs. 8,26,735.65
Mr. Ramniwas Soni Mrs. Muni Devi 702/3295,702/3317 & 702/3318	All that part and parcel of the immovable property situated at Ward No. 30, Near Mohalla Salampuria Kuan, Sardarsahar, District- Churu (Raj.) admeasuring 911 I Dargaj (2x2) and bounded by: North: Shyamsunder Soni, South: House of Salaram, East: Gali & Exit, West: House of Labhuram Jat	28.03.2022	07.06.2022	Rs. 28,77,682.05
Mr. Mohan Lal Mrs. Savitri Devi Mr. Vijay Kumar Sharma Mr. Sushil Kumar Sharma Mr. Rakesh Sharma 712/215	All that part and parcel of the immovable property situated at Ward No. 13, Rawatsar, District- Hanumangarh (Raj) admeasuring 174.94 Sq. Yd and same bounded by: North: Aam Gali, South: Chetram Matoria, East: Jagdish, West: Omprakash	28.03.2022	08.06.2022	Rs. 17,89,710.96
Mr. Saddam Khan Bhati Mrs. Balkish Mr. Lal Khan 712/217	All that part and parcel of the immovable property situated at Village- Ninan, Panchayat Samiti- Bhadra, District- Hanumangarh (Raj) admeasuring 2760 Sq. Ft (Patta No. 4746) and same bounded by: North: Nanuram Dhanak, South: Aam Rasta, East: Rahmati, West: Lekhrum Khichar	28.03.2022	08.06.2022	Rs. 9,39,271.89
Mr. Sandeep Kumar Saharan Mrs. Shilochana 712/1016	All that part and parcel of the immovable property situated at Kila No. 3, Muraba No. 66, Chak- 8 MSR, Gram Panchayat- Karampura, District- Hanumangarh (Raj) admeasuring 1750 Sq. Ft and bounded by: North: Suman, South: Remaining Part, East: Ranjeet, West: Road	23.03.2022	08.06.2022	Rs. 10,76,797.17
Mr. Krishan Kumar Mrs. Jasama 712/1090	All that part and parcel of the immovable property situated at Village- Munsari, Panchayat Samiti- Bhadra, District- Hanumangarh (Raj.) admeasuring 2485 Sq. Ft (Patta No. 014) and bounded by: North: Prithvi Singh, South: Subhash, East: Nathuram, West: Rasta	23.03.2022	08.06.2022	Rs. 8,65,093.53

Place: Rajasthan
Date: 12/06/2022

Authorized Officer
Bandhan Bank Limited

कार्यालय नगर परिषद, पाली (राज.)
(सालान्वार, सार्वजनिक, सुव्यवहार के पास, पाली, पिनकोड - 306401)
(दो-थी-बर्थ : 0292-221201, ई-मेल : cmcpali@yaho.co.in, वेब-साईट : www.mcpali.com)

क्रमांक : प-12 () विकस / 2022 / 109 दिनांक : 08.06.2022

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) - 109

नगर परिषद, पाली की ओर से राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में पंजीकृत संवेदकों से **Upgradation of 7.5 MLD STP Situated at Mandlay Road, Pali** कार्य हेतु Request For Proposal (RFP) आमंत्रित की जाती है। संवेदक दिनांक 13.06.2022 से दिनांक 15.07.2022 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं जिन्हें दिनांक 18.07.2022 को खोला जाएगा। उक्त RFP हेतु Pre-Bid Meeting का आयोजन दिनांक 08.07.2022 को अधोस्तराधिकार कार्यालय में रखा गया है।

इच्छुक संवेदक RFP से सम्बंधित अन्य विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://eproc.rajasthan.gov.in>, तथा अधोस्तराधिकार कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त RFP के यूएन संख्या DLB2223RFP0019 व टेंडर आईडी 2022_DLB_279846_1 है।

राज.संवेद/सौ.22/3164 आयुक्त अधिशाही अभियन्ता

LAXMI INDIA FINLEASPC PRIVATE LIMITED
(CIN: U65929RJ1996PTC037074)
Corp. Office: 2, DFL Tower, Gopinath Marg, MI Road, Jaipur - 302001, Rajasthan, India. Ph: +91-141-4031166 | Email: info@lifc.in

APPENDIX IV (SEE RULE 8(I)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Laxmi India Finleaspc Private Limited under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act, 2002, [54 of 2002]) and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 1-Apr-2021 Calling upon the Borrower Badami Devi W/O Braj Mohan Verma (Borrower & Mortgagor), Ravi Kumar S/O Braj Mohan Verma (Co-Borrower), Vijay Baharwal S/O Braj Mohan Verma (Guarantor), (Loan Account No. - PL5234) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 22,58,037/- (Rs. Twenty Two Lac Fifty Eight Thousand & Thirty Seven Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 08th Day of June of the Year 2022.

The borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Laxmi India Finleaspc Private Limited for an amount of Rs. 22,58,037/- (Rs. Twenty Two Lac Fifty Eight Thousand & Thirty Seven Only) as on 23-Mar-2021 and interest and expenses thereon until full payment.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of immovable properties

All that part and parcel of residential / commercial property Land / Building / Structure and fixtures situated at Plot Patta No. CAMP/133 Raigro Ka Mohalla Near Ramdev Temple Teh. Sanganeer Jaipur, Rajasthan. Admeasuring 111.04 Sq. Yards Owned By Badami Devi W/O Braj Mohan Verma
East: House of Puran Chand, West: House of Kamlesh, North: Rasta, South: Other's

Date : 08/June/2022
Place : Jaipur

Authorized Officer
LAXMI INDIA FINLEASPC PRIVATE LIMITED

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorized Officer/s of **Housing Development Finance Corporation Limited**, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.

Sr. No.	Name of Borrower (s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s)	Outstanding Dues as on	Date of Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property(ies) Secured Asset (s)	
1.	MR ABDUL SAMAD S/O MR. YASEEN KHAN AND MR NOOR MOHAMMED S/O MR. ABDUL SAMAD	Rs. 37,36,757/-	28-FEB-22	09-JUNE-2022	87/A/ II /1 (West Part), BAHU BALI NAGAR, NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About - 116.72 Sq. Yards (97.59 Sq. Mts.) Bounded by: East- Plot No. 87 A.II, West- Plot no 87, North- Plot no. 141, South- 30 Ft wide road.	
2.	MR RAJESH SHARMA S/O SH. KAJOD MAL SHARMA	Rs. 17,01,929/-	28-JUN-21	09-JUNE-2022	UNIT NO. / FLAT NO.- F-1, FIRST FLOOR, SALASAR DHAM- 2, PLOT 7, RUKMANI VIHAR HARNATHPURA, KALWAR ROAD, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 650 Sq. Ft.	
3.	MR JAIPRAKASH S/O SH. CHUNNI LAL	Rs. 20,21,428/-	30-DEC-21	09-JUNE-2022	UNIT-NO. S-1, SECOND FLOOR, PLOT NO. 163, KANAK VRINDAVAN, VILLAGE- KANAKPURA, SIRSI ROAD, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 703.31 Sq. Ft. (65.34 Sq. Mtr)	
4.	MRS REKHA TIVADI W/O MR. NEEARAJ KUMAR AND MR NEEARAJ KUMAR S/O MR. RAM ESHWAR UPADHYAY	Rs. 16,83,554/-	27-DEC-21	09-JUNE-2022	UNIT NO. 101, FIRST FLOOR, MAHIMA'S SHUBH NILAY, PHASE-I, TOWER NO.-6 VILLAGE -CHIMANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 641 Sq. Ft. (Built-up Area) / 833 Sq. Ft. (Super Built-up)	
5.	MR ASHISH SHALLEY S/O SH. AMAR NATH SHALLEY AND MRS. VARSHA SHAILI W/O MR. ASHISH SHALLEY	Rs. 25,86,107/-	31-Jan-2022	28-FEB-22	09-JUNE-2022	FLAT-S-2, FLOOR-SECOND, SHRI KUNJ, PLOT NO. 83 & 83-A, KRISHNA SAROVAR, VILLAGE- RAMSINGHPURA URFDHOLAI, TEHSIL SANGANER RAJASTHAN Admeasuring Area About- 1200 Sq. Ft (111.4 Sq.Mt.)
6.	MR ROHITASH YADAV S/O SHRI R K YADAV	Rs. 29,39,801/-	31-Jan-2022	28-FEB-22	09-JUNE-2022	C-78, MOTI VIHAR SCHEME, CHAK GAITOR JAIPUR-302011 Admeasuring Area About- 128.33 Sq. Yards Bounded by- East- Others Land, West- 30 Ft Wide Road, North Plot C-79, South- Others Land.
7.	MR VIJENDRA SHARMA S/O SH. BABU LAL SHARMA	Rs. 17,40,240/-	31-May-2021	09-JUNE-2022	FLAT NO.- F-2, FIRST FLOOR, PLOT NO. N-77 (OLD NO. 74), SUNFLOWER COLONY, GRAM -NAGRIYAWALA, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 810 Sq. Ft. (Built-up Area)	
8.	MR. SUKHRAM SAINI S/O SH. RAGHUVEER PRASAD SAINI AND MRS. VIMALA W/O MR. SUKHRAM SAINI	Rs. 21,10,655/-	31-Jan-2022	28-FEB-22	09-JUNE-2022	UNIT/ FLAT NO.- G-1, GROUND FLOOR, 'SAMARTH VILLA' PLOT NO. 39, SHREE NATH NAGAR, VILLAGE- CHAK GAITORE, TEHSIL- SANGANER, DISTRICT- JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 775 Sq. Ft. (71.99 Sq. Mtr)
9.	MR HOTILAL SHARMA S/O S. H. R. ADHA KISHAN SHARMA AND MR RAJESH KUMAR S/O S. H. R. ADHA KISHAN SHARMA	Rs. 21,11,836/-	31-Jan-2022	28-FEB-22	09-JUNE-2022	263/204, RHB-PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR RAJASTHAN Admeasuring Area About- 47,625 Sq. Mtrs. (512.63 Sq. Ft.) Bounded by- East- Plot No. 263/248, West- Plot No. 263/205, North - Road, South - Plot No. 263/248.
10.	MRS ANITA VYAS D/O SH. SHYAM SUNDER SHARMA	Rs. 22,43,522/-	31-Jan-2022	28-FEB-22	09-JUNE-2022	FLAT NO- S-1, SECOND FLOOR, PLOT NO. 82, VINYAK ENCLAVE, VILLAGE- NARSINGPUR, TEHSIL- SANGANER JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 900 Sq. Ft. (83.61 Sq. Mtr)
11.	MR GIRISH GOYAL S/O SH. SURAJ NARAYAN GOYAL, MRS SHILPA GOYAL W/O S. H. GIRISH GOYAL AND MR SUNIL MALAKAR S/O SH. DEEPAKAND	Rs. 19,63,282/-	31-Jan-2022	28-FEB-22	10-JUNE-2022	S-1, SECOND FLOOR, APARTMENT ON PLOT NO. 9, INCOMETAX OFFICERS COLONY, SURAJ NAGAR (WEST), CIVIL LINES, JAIPUR 302006 Admeasuring Area About- Total surface Area 1350 Sq. Ft (125.41 Sq.MTR)
12.	MR. UPENDRA S/O MR PRABHU LAL SHARMA	Rs. 18,43,868/-	30-Nov-2021	27-DEC-21	10-JUNE-2022	PLOT NO 13-C, SCHEME NO. 53 KESHAV PARK, JAMDOLI, AGRA ROAD, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 75 Sq. Yards Bounded by- East- Plot No. 12, West- Plot No. 13, 13-A, 13-B, North- Other Plot, South - Road 30 Ft
13.	MR TARUN D CHATURVEDI S/O SH. DAU DAYAL CHATURVEDI AND MRS. TRIPTI W/O MR TARUN D CHATURVEDI	Rs. 16,89,216/-	31-May-2021	23-JUN-21	10-JUNE-2022	FLAT NO 4701, SEVENTH FLOOR SOUTHERN HEIGHTS-2 (BLOCK-4) KHARSA NO. 137, NAGARIYAWALA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 1287.50 Sq. Ft. (Super Built-up)
14.	MRS. MUKESH YADAV W/O MANPAL SINGH YADAV AND MR MANPAL SINGH YADAV S/O UDAY SINGH YADAV	Rs. 29,68,582/-	31-Jan-2022	28-FEB-22	10-JUNE-2022	NO. 223, WEST PART, PASHUPATI NATH NAGAR, CHAK GAITORE, TEH - SANGANER, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- Total surface Area 96 Sq. Yards (80 Sq. Mt) Bounded by- East- Plot No. 223A, West- Plot no. 222, North- 30 ft. wide road South - Plot No. 224
15.	MR NEERAJ KUMAR S/O MR RAMESHWAR UPADHYAY AND MRS REKHA TIVADI W/O MR NEERAJ KUMAR	Rs. 27,67,599/-	30-Nov-2021	27-DEC-21	10-JUNE-2022	PLOT NO. 228 1st -A (SOUTH PART OF NORTH EAST PART OF PLOT NO. 228) GANESH NAGAR, NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 66.66 Sq. Yards (55.73 Sq. Mtrs) Bounded by- East- Road -30 Ft, West- Plot No. 227, North- border part of Plot No. 228-1st, South: Plot No. 228
16.	MR MANI BHUSHAN THAKUR S/O SH. SHESH NARAYAN THAKUR	Rs. 28,70,769/-	30-Nov-2021	27-DEC-21	10-JUNE-2022	PLOT NO 77-A (NORTH PART), GANESH NAGAR EXTENSION, HARNATHPURA, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- Total surface Area 75 Sq. Yards (62.70 Sq Mt.) Bounded by- East- Plot No. 74, West- 30 feet wide Road, North- Plot no. 78, South - Residue Part of Plot No. 77.
17.	MR VIKRAM SINGH RANAWAT S/O SH. TEJ SINGH RANAWAT AND MRS. PRAMILA KANWAR W/O SH. VIKRAM SINGH RANAWAT	Rs. 15,40,242/-	30-Nov-2021	27-DEC-21	10-JUNE-2022	UNIT/ FLAT NO.- G-2, GROUND FLOOR, BALAJI APARTMENT PLOT NO 47- A, GANESH NAGAR EXTENSION, KALWAR ROAD, JHOTWARA, JAIPUR (RAJASTHAN) Admeasuring Area About- 765 Sq. Ft. (71.07 Sq. Mtr)

Place: Jaipur Date: 11-June-2022

Sd/- Authorized Officer
For Housing Development Finance Corporation Ltd.

HERO HOUSING FINANCE LIMITED

Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasanti Vihar, New Delhi - 110057, Ph: 011-49267000, Toll Free No: 1800 212 8800, Email: customer.care@herofin.com
Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC030148

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Hero Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act with rule 8 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Hero Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Loan Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Date of Demand Notice/Amount as per Demand Notice	Date of Possession
HJFHJAIHO19000001642 & HJFHJAILAP19000001646	Mr. Kailash Chand Sharma & Anita Kumari Sharma	02/07/2021, Rs. 46,06,452.66 as on date 01/07/2021	07/06/2022 (Physical)

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- Plot No-35, Shri Hari Nivas Colony, Gram-Bassi, Tehsil- Bassi, District Jalpur, Rajasthan-303301, JDA Vojna, Hari Nivas (Nij Khatedar), Having Area Admeasuring 106.11 Sq. Yards. Bounded By- North-Plot No-34, East- 30 Feet Wide Road, South- Other Property, West- Plot No-17.

DATE:-12-06-2022, PLACE:- JAIPUR Sd/- Authorized Officer FOR HERO HOUSING FINANCE LIMITED

APM FINVEST LIMITED

CIN : L65990RJ2016PLC054921
Regd. Office: SP-147, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Rajasthan-301019
Corporate Office: 201, 2nd Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 | Phone: (011) 42610483
Email: apmfinvesttd@gmail.com | Website: www.apmfinvest.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No.3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), and other applicable provisions, including any Statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as mentioned from time to time) a Postal Ballot Notice, seeking consent of the members on the resolutions as set out in the said Notice has been sent electronically to the members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants/ Registrar & share transfer agent i.e. Skyline Financial Services Private Limited, as on Friday, June 10, 2022 (Cut-Off Date).

- Resolutions are mentioned below:**
- Ordinary/Special resolution-
 - Approval for alteration in Object Clause of the Memorandum of Association of the Company;
 - Approval for Change of Name of the Company and consequential amendment to Memorandum of Association and Articles of Association of the Company;
 - Increase in authorized share capital of the Company;
 - Approval of APM Finvest Limited Employee Stock Option Plan, 2022 ("APM ESOP Scheme 2022");
 - Approval for issuance of 3,00,000 Equity Shares on preferential basis;
 - Approval for issuance of 16,00,000 fully convertible warrants into equity shares on preferential basis to an entity belonging to promoter category;

The dispatch of the said notice through emails has been completed on **June 11, 2022**.
The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.apmfinvest.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of e-voting agency National Securities Depository Limited (NSDL), at www.evoting.nsdl.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice may download it from the above mentioned websites.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Friday, June 10, 2022, may cast their vote electronically on the business items as set out in the notice of the postal ballot through electronic voting system (remote e-voting) of National Securities Depository Limited (NSDL). The members are further informed that:

- The special businesses as set out in the notice of the postal ballot are to be transacted through voting by electronic means only.
- The remote e-voting begins at 09:00 a.m. (IST) on Sunday, June 12, 2022.
- The remote e-voting ends at 05:00 p.m. (IST) on Monday, June 13, 2022.
- The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by electronic means is Friday, June 10, 2022.
- The members may note that (i) the remote e-voting module shall be disabled for voting and the voting by electronic means shall not be allowed after the date and time mentioned under point 'c' above; and (ii) once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- The manner of remote e-voting for members holding shares in physical form or dematerialized form or who have not registered their email addresses with the Company / Depository Participant, is provided in the notice of the postal ballot and available on the Company's website at www.apmfinvest.com.
- Manner of registering/ updating email address:
 - For members holding shares in Physical form and whose e-mail addresses are not registered/ updated are requested to register/ update their E-mail ID by contacting their respective Depository Participant or by email to M/s Skyline Financial Services Private Limited (RTA) at: admin@skyline.com
 - Members, holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their email IDs with their respective Depository Participants.
- In case of any query and/or grievance in respect of voting by electronic means, Members may refer to Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under Help section or may contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager (NSDL), National Securities Depository Ltd. For APM Finvest Limited

Date : 11/06/2022
Place: Awar

Sd/-
MAYANK PRATAP SINGH
(Company Secretary & Compliance Officer)

Model Hospital Bapunagar Employee's State Insurance Corporation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)
NEAR HARDASNAGAR POLICE CHOWKY, RAJVI NAGAR, BAPUNAGAR, AHMEDABAD - 380024 (ISO 9001:2015 Certified)
Website : www.esic.nic.in, www.esic.in

ADVERTISEMENT NO. 05/2022 WALK-IN-INTERVIEW FOR RECRUITMENT OF DOCTORS ON CONTRACT BASIS

Walk-in- interview will be held at ESIC Model Hospital Bapunagar, Ahmedabad in the chamber of Medical Superintendent on 23/06/2022 and 24/06/2022 from 09:30 AM onwards for following posts:

Post	Speciality / No of Posts
Senior Residents (Under 3 Years Residency Scheme) extendable every year	General Medicine-04, General Surgery-01, Orthopaedic-2, Skin-01, Obs & Gynec-01, Anaesthesia-03 and Pathology-01.
Senior Residents 03 year againsts GDMO	General Medicine-02, General Surgery-02, Orthopaedic-01, Paediatrics-02, Obs & Gynec-01 & Anaesthesia-03.
Full Time Specialists	Radiology - 01
Full Time / Part Time Super Specialists	Endocrinology-01, Oncology (Medical)-1 and Urology - 01.

Interested candidates may visit ESIC Website www.esic.nic.in under tab 'Recruitment' for schedule, detailed vacancy position and terms & conditions.
Sd/-
Medical Superintendent

The Indian Express
— JOURNALIST OF COURAGE —
I get the inside information and get inside the information.
Inform your opinion with investigative journalism.
The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

I have changed my Name change from **Dr. POONAM GUPTA** to **Dr. POONAM ELHENCE** for all future references
R/O 503/1, AIIMS RESIDENTIAL CAMPUS, BASNI PHASE-2 JODHPUR-342005

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

ICICI Bank Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No.- 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Physical Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	M/s Shree Radha Govind Steel/ Krishna Kumar Rathil/ Vivek Rathil/ A/C No. 065005000881	Residential Property Situated at Patta No-196, Misal No-286, Mohalla New Safli D, Dhapani Rai Road Bikaner Rajasthan- 334001/ June 07, 2022	July 31, 2020 Rs. 71,50,004/-	Bikaner

The above-mentioned borrower(s)/ guarantor(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : June 10, 2022
Place: Bikaner
Authorized Officer
ICICI Bank Limited

